



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 31] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 30—अगस्त 5, 2005 (श्रावण 8, 1927)
No. 31] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 30—AUGUST 5, 2005 (SRAVANA 8, 1927)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची	
भाग I--खण्ड-1--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	पृष्ठ 849
भाग I--खण्ड-2--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	713
भाग I--खण्ड-3--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	7
भाग I--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1247
भाग II--खण्ड-1--अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II--खण्ड-1क--अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II--खण्ड-2--विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II--खण्ड-3--उप-खण्ड (i)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II--खण्ड-3--उप-खण्ड (ii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II--खण्ड-3--उप-खण्ड (iii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	पृष्ठ 899
भाग II--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III--खण्ड-1--उच्च न्यायालयों, निर्यंत्रक और महालेखा-परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	361
भाग III--खण्ड-2--पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	*
भाग III--खण्ड-3--मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	2043
भाग III--खण्ड-4--विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	207
भाग IV--गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	*
भाग V--अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्ण	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

(849)

CONTENTS

	Page		Page
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	849	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	713	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	7	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	899
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1247	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	361
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the Authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	2043
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	207
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*		

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 14 जुलाई 2005

सं. आरएस./31(i)/2004-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति ने 2 जुलाई, 2005 से राज्य सभा सचिवालय की हिन्दी सलाहकार समिति का गठन किया है। समिति का कार्यकाल, इसके कृत्य और गठन आदि निम्नानुसार हैं:--

शासकीय सदस्य

- माननीय उपसभापति, राज्य सभा--उपाध्यक्ष (माननीय सभापति की अनुपस्थिति में समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।)

अशासकीय सदस्य

राज्य सभा के सदस्य

- डा. अखिलेश दास
- प्रो. अलका बलराम क्षत्रिय
- डा. प्रभा ठाकुर
- श्रीमती सुषमा स्वराज
- श्री कलराज मिश्र
- श्रीमती सरला माहेश्वरी
- श्री उदय प्रताप सिंह
- डा. के. मलयसामी
- श्रीमती कुमकुम राय
- श्री सतीश चन्द्र मिश्रा
- श्री शरद अनंतराव जोशी

संसदीय राजभाषा समिति के सदस्य

- श्री गांधी आजाद
- श्रीमती वंगा गीता

अखिल भारतीय हिन्दी संस्थाओं के प्रतिनिधि

- डा. एल. एम. सिंघवी (पूर्व संसद सदस्य)
कार्यकारी सदस्य, अखिल भारतीय हिन्दी संस्था संघ, नई दिल्ली
और संरक्षक, हिन्दी प्रचार प्रसार संस्थान, जयपुर

केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् का प्रतिनिधि

- प्रधान, केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद्

अन्य शासकीय सदस्य

- महासचिव, राज्य सभा

- सचिव, राजभाषा विभाग तथा भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार
- अपर सचिव, राज्य सभा सचिवालय
- सचिवालय के राजभाषा प्रभाग से संबंधित संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी
- राजभाषा विभाग, भारत सरकार का एक प्रतिनिधि जोकि संयुक्त सचिव के रैंक से नीचे न हो।

राज्य सभा के माननीय सभापति समिति के अध्यक्ष हैं।

2. कार्य

समिति का कार्य सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के बारे में राज्य सभा सचिवालय को सलाह देना होगा। एक कलैन्डर वर्ष में समिति की तीन बैठकें होंगी।

3. कार्यकाल

समिति का कार्यकाल इसके गठन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा, बशर्ते कि :--

- राज्य सभा के सदस्य, जो समिति के सदस्य हैं, राज्य सभा का सदस्य न रहने पर इस समिति के सदस्य भी नहीं रहेंगे।
- समिति के पदेन सदस्य उस समय तक सदस्य बने रहेंगे जब तक वे उन पदों पर हैं, जिनके कारण वह समिति के सदस्य हैं।
- यदि किसी सदस्य के त्यागपत्र अथवा मृत्यु आदि के कारण समिति में कोई स्थान रिक्त होता है तो उसके स्थान पर नियुक्त किए गए सदस्य का कार्यकाल तीन वर्ष के कार्यकाल की अवशिष्ट अवधि के लिए होगा।

4. सामान्य

राज्य सभा सचिवालय का प्रधान मुख्य संपादक समिति की बैठकों का समन्वय करेगा तथा राज्य सभा सचिवालय का राजभाषा प्रभाग, समिति को सचिवालयिक सहायता प्रदान करेगा।

5. यात्रा भत्ते तथा अन्य भत्ते

समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए अशासकीय सदस्यों को राजभाषा विभाग के दिनांक 22 जनवरी, 1987 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11/20034/4/86-रा. भा. (क-2) में अंतर्निहित दिशा-निर्देशों के अनुरूप भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथा-संशोधित निर्धारित दरों एवं नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता दिया जाएगा।

प्र. रं. गुहाराय
निदेशक

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 14 जुलाई 2005

संकल्प

सं. ए. आई./टाइफैक/जीबी-1/2004--प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद (टाइफैक) के नियमों और विनियमों के नियम 10 के प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार ने प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद (टाइफैक) के प्रशासी निकाय को निम्नलिखित सदस्यों के साथ तत्काल पभाव से पुनर्गठित करने का निर्णय लिया है :--

अध्यक्ष

1. डा. आर. चिदम्बरम, प्रोफेसर, डा. होमी भाभा चेयर, बी ए आर सी, ट्राम्बे, मुम्बई-400085

सदस्य

2. सचिव, योजना आयोग (डा. राजीव रत्न शाह), योजना भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001।
3. सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (प्रोफेसर वी. एस. राममूर्ति), टेक्नोलोजी भवन, नया महरौली मार्ग, नई दिल्ली-110016।
4. महानिदेशक, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद एवं सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डा. आर. ए. मशेलकर), अनुसंधान भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001।
5. सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (श्री ब्रिजेश कुमार), इलैक्ट्रॉनिक्स निकेतन, सीजीओ परिसर, लोदी रोड, नई दिल्ली।
6. सचिव, जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डा. महाराज कृष्ण भान), सीजीओ परिसर, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003।
7. सचिव, औद्योगिक विकास, नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (श्री अशोक झा), कमरा सं. 46 उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011।
8. सचिव, रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग (श्री एम. नटराजन), कमरा सं. 137 साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली-110011।
9. सचिव, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (डा. राकेश मोहन), नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001।
10. श्री वाई. सी. देवेश्वर, अध्यक्ष, इंडियन टोबैको कारपोरेशन (आई टी सी) लिमिटेड, 37 जवाहर लाल नेहरू रोड, वर्जिनिया हाउस, द्वितीय तल, कोलकाता-700071।
11. सुश्री किरण मजूमदार शॉ, सी एम डी, बायोकोन इंडस्ट्रीज, बीसवां के. एम. होसुर रोड, इलैक्ट्रॉनिक सिटी, बंगलौर-560100।

12. डा. एन. आर. नारायणमूर्ति, अध्यक्ष इन्फोसिस टेक्नोलोजीज लिमिटेड, थर्ड फ़्लास, इलैक्ट्रॉनिक सिटी होसुर रोड बंगलौर-561 229।
 13. डा. कोट्ट हरीनारायण, उप कुलपति, पी ओ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, हैदराबाद-500 046।
 14. लेफ्टिनेंट जनरल यश मल्होत्रा, ए वी एस एम (सेवानिवृत्त) पूर्व कमांडेंट, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग, (सी एम ई) सं. 1 (एफ/1) अर्बन हाऊस एनक्लेव, बी टी कावड़ा रोड, घोरपदी, पुणे-411 001।
 15. डा. भारती रे, पूर्व सांसद (राज्य सभा) 6 बी, सोनाली अपार्टमेंट्स, 8/2 ए, अलीपुर पार्क रोड, कोलकाता-700 027।
 16. श्री गौतम रोहतगी, निदेशक एवं तकनीकी सलाहकार, मैसर्स हिन्द कैमिकल्स लिमिटेड, एम-336, रेल बाजार, कानपुर-208 004।
 17. डा. सतीश के. कोड़ा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सैमटल कलर लिमिटेड, 52 कम्प्यूनिटी सेंटर, न्यू फ्रेंड्स कालोनी, नई दिल्ली-110 065।
 18. डा. नरेश त्रेहन, एस्कोर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट एण्ड रिसर्च सेंटर, ओखला रोड, नई दिल्ली-110025।
 19. प्रो. एस. पी. सुखातमे, अवकाश प्राप्त प्रोफेसर, आई आई टी, मुम्बई-400 094।
 20. डा. टी. रामासामी, निदेशक, केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, अड्यार, चैन्नई-600 020।
 21. डा. आनन्द पटवर्धन, कार्यकारी निदेशक, टाइफैक, विश्वकर्मा भवन, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110016।
- पुनर्गठित प्रशासी निकाय की सदस्यता की अवधि तीन वर्षों की होगी।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रतिलिपि प्रशासी निकाय के सभी सदस्यों, समस्त राज्य सरकारों एवं संघ शासित क्षेत्र प्रमुखों, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, राष्ट्रपति सचिवालय, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक तथा भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों को भेजी जाए।

आदेश दिया जाता है कि सामान्य जानकारी के लिए संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

संजीव नायर
संयुक्त सचिव

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 14th July 2005

No. RS/31(i)/2004-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to constitute a Hindi Salahkar Samiti for the Rajya Sabha Secretariat with effect from the 2nd July, 2005. The tenure of the Samiti, its functions and composition etc. are given hereunder :—

Official Members

1. Hon'ble Deputy Chairman, Rajya Sabha—Vice-Chairman (Will act as the Chairman of the Samiti in the absence of Hon'ble Chairman)

Non-official Members

Members of Rajya Sabha

2. Dr. Akhilesh Das
3. Prof. Alka Balram Kshatriya
4. Dr. Prabha Thakur
5. Smt. Sushma Swaraj
6. Shri Kalraj Mishra
7. Smt. Sarla Maheshwari
8. Shri Uday Pratap Singh
9. Dr. K. Malaisamy
10. Smt. Kumkum Rai
11. Shri Satish Chandra Misra
12. Shri Sharad Anant Rao Joshi

Members of the Committee of Parliament on Official Language

13. Shri Gandhi Azad
14. Smt. Vanga Geetha

Representative of All India Hindi Institutions

15. Dr. L. M. Singhvi (Ex-MP)
Executive Member, Akhil Bharatiya Hindi Sanstha Sangh, New Delhi & Patron, Hindi Prachar Prasar Sansthan, Jaipur.

Representative of Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad

16. Pradhan, Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad

Other Official Members

17. Secretary-General, Rajya Sabha.
18. Secretary, Department of Official Language and Hindi Advisor to the Government of India.
19. Additional Secretary, Rajya Sabha Secretariat.
20. Joint Secretary-level officer dealing with Rajbhasha Prabhaag of the Secretariat.

21. A representative, not below the rank of Joint Secretary of the Department of Official Language, Government of India.

Hon'ble Chairman, Rajya Sabha is the Chairman of the Samiti

2. Functions

The functions of the Samiti will be to advise the Rajya Sabha Secretariat regarding progressive use of Hindi in official work. Three meetings of the Samiti may be held in a calendar year.

3. Tenure

The term of the Samiti will be three years from the date of formation provided that :—

- (a) Members of Rajya Sabha who are the members of the Samiti shall cease to be members as soon as they cease to be Members of Rajya Sabha.
- (b) Ex-officio Members of the Samiti shall continue as Members as long as they hold the office by virtue of which they are Members of the Samiti.
- (c) If a vacancy arises, on the Samiti due to resignation or death of a Member, the Member appointed in that capacity shall hold the office for the residual period of the tenure of three years.

4. General

The Principal Chief Editor, Rajya Sabha Secretariat will co-ordinate the meetings of the Samiti and the Rajbhasha Prabhaag of the Rajya Sabha Secretariat will provide secretarial assistance to the Samiti.

5. Travelling and other allowances

The non-official members will be paid Travelling Allowance and Daily Allowance for attending the meetings of the Samiti at the prescribed rates as amended from time to time by the Government of India and instructions contained in O.M. No. II/20034/4/86-O.L. (A-2) dated the 22nd January, 1987 of the Department of Official Language.

P. R. GUHA ROY, Dir.

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
(DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY)

New Delhi, the 14th July 2005

RESOLUTION

No. A1/TIFAC/GB-1/2004.—In terms of Rule 10 of the Rules and Regulations of Technology Information, Forecasting and Assessment Council (TIFAC), the Government of India has decided to reconstitute with immediate effect the Governing Body of "Technology Information, Forecasting and Assessment Council (TIFAC)" with the following members :—

Chairman

1. Dr. R. Chidambaram, Professor, Dr. Homi Bhabha Chair, BARC, Trombay, Mumbai-400085

Members

2. Secretary, Planning Commission, (Dr. Rajeev Ratna Shah), Yojana Bhavan, Sansad Marg, New Delhi-110001.
3. Secretary, Department of Science & Technology, (Prof. V. S. Ramamurthy), Technology Bhavan, New Mehrauli Road, New Delhi-110016.
4. Director General, Council of Scientific & Industrial Research & Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, (Dr. R. A. Mashelkar), Anusandhan Bhavan, Rafi Marg, New Delhi-110001.
5. Secretary, Department of Information Technology, (Shri Brijesh Kumar), Electronics Niketan, CGO Complex, New Delhi.
6. Secretary, Department of Biotechnology, (Dr. Maharaj Krishan Bhan), CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003.
7. Secretary, Department of Industrial Development, Policy & Promotion, Min. of Commerce & Industry, (Shri Ashok Jha), Room No. 46, Udyog Bhavan, New Delhi-110011.
8. Secretary, Department of Defence Research and Development (Shri M. Natarajan), Room No. 137, South Block, New Delhi-110011.
9. Secretary, Min. of Finance, Department of Economic Affairs, (Dr. Rakesh Mohan), North Block, New Delhi-110001.
10. Shri Y. C. Deveshwar, Chairman, Indian Tobacco Co. (ITC) Ltd., 37, J.L. Nehru Road, Virginia House, Second Floor, Kolkata-700071.
11. Ms. Kiran Majumder-Shaw, CMD, Biocon Industries, 20th KM Hosur Road, Electronics City, Bangalore-560 100.
12. Dr. N. R. Narayana Murthy, Chairman, Infosys Technologies Ltd., 3rd cross, Electronics City, Housure Road, Bangalore-561 229.
13. Dr. Kota Harinarayana, Vice Chancellor, Central University, Hyderabad-500 046.
14. Lt. Gen. Yash Malhotra, AVSM (Retd.), Former Commandant, College of Military Engineering (CME), No. 1 (F/1), Urban Horse Enclave, BT Kawada Road, Ghorpadi, Pune-700 027.
15. Dr. Bharati Ray, Ex-MP, (Rajya Sabha), 6B, Sonali Apartments, 8/2A, Alipore Park Road, Kolkata-700 027.
16. Shri Gautam Rohtagi, Director & Technical Adviser, M/s. Hind Chemicals Ltd., M-336, Rail Bazar, Kanpur-208 004.
17. Dr. Satish K. Kaura, Chairman & Managing Director, Sametel Color Ltd., 52, Community Centre, New Friends Colony, New Delhi-110 065.
18. Dr. Naresh Trehan, Escorts Heart Institute and Research Centre, Okhla Road, New Delhi-110 025.
19. Prof. S. P. Sukhatme, Emeritus Professor, IIT, Mumbai-400 094.
20. Dr. T. Ramasami, Director, Central Leather Research Institute, Adyar, Chennai-600 020.

Member Secretary

21. Dr. Anand Patwardhan, Executive Director, TIFAC, Vishwakarma Bhawan, Shaheed Jeet Singh Marg, New Delhi-110 016.

The term of the membership of reconstituted Governing Body will be three years.

ORDER

Ordered that a copy of Resolution be communicated to all members of the Governing Body, all State Government and Union Territory Administrators, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, President's Secretariat, Comptroller and Auditor General of India and all the Ministries/Departments of the Government of India and all others concerned.

Ordered that the Resolution be published in Gazette of India for general information.

SANJEEV NAIR, Jt. Secy.